

अध्याय 10

गुनो और कोयो

इन शब्दों के अर्थ लिखिए

गुनो - मददगार । कोयो - अमीर । पोशाक- वस्त्र । इंतजाम - व्यवस्था ।
उकसाया-उकसाना । हड़बड़ा कर-जल्दी बाजी में । शर्मिंदगी-लज्जित
होना । आश्वासन- दिलासा । मुद्रा- अवस्था ।

सही उत्तर पर सही कानिशान लगाओ-

1. यह लोककथा किसकी है ?

क. राम और श्याम की ख. किसान और भालू की

ग. गुनो और कोयो की [✓]

2. गुनो और कोयो चोरी करने के लिए किसके घर गए थे ?

क. पड़ोसी के घर [✓] ख. बड़े व्यापारी के घर ग. बूढ़े आदमी के घर

3. जब गुनो चोरी के लिए गया तो उसकी नजर किस पर पड़ी?

क. रंगीन चूड़ियों पर. ख. रंगीन पोशाक पर [✓] ग. रंगीन रूमाल

पर 4. इंडोनेशिया के लोग किस का नाम सुनकर अपनी हँसी नहीं
रोक पाते हैं ?

क. राम और श्याम. ख. गुनो और कोयो [✓] ग. मोहन और सोहन की

5. सूखी नदी में कूदने के बाद गुनो और कोयो कैसा महसूस कर रहे
थे?

क. गर्व ख. शर्मिंदा. [✓] ग. खुशी

सही तथा गलत का निशान लगाओ -

1. गुना हमेशा दूसरों की मदद करता था। [x]

2. कोयो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। [x]

3. गुनो चोरी का सारा सामान जमीन पर छोड़ कर भाग गया। [✓]

4. गुनो और कोयो पहाड़ की ऊँचाई से नदी में छलांग लगा दी। [✓]

5. गुनो सूखी नदी में छलांग लगाने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था । [✓]

प्रश्नों के उत्तर लिखो-

1. गुनो और कोयो का क्या अर्थ होता है?

उत्तर- गुनो का अर्थ होता है मददगार और कोयो का मतलब अमीर होता है।

2. गुनो और कोयो की लोक कथा कहाँ की प्रसिद्ध लोक कथा है ?

उत्तर- गुनो और कोयो की लोककथा इंडोनेशिया के जावा सुमित्रा आदि जगहों की प्रसिद्ध लोक कथा है।

3. गुनो और कोयो ने एक साथ क्यों शोर मचाया?

उत्तर- गुनो और कोयो अपने पड़ोसी के घर चोरी करने के लिए गए थे जब गुनो खूँटी पर टंगी रंगीन पोशाक को पहनकर बाहर निकला तो कोयो रंगीन पोशाक पहने गुनो को पड़ोसी समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो गुनो डर गया, उसे लगा लोग पकड़ने आ रहे हैं इस प्रकार दोनों एक साथ शोर मचाने लगे।

4. गुनो और कोयो और सूखी नदी में तैरने का अभिनय क्यों कर रहे थे ?

उत्तर- गुनो और कोयो पकड़े जाने पर मार खाने के डर से और अपनी शर्मिंदगी तथा पत्थरों से लगी चोट को छुपाने के लिए सूखी नदी में तैरने का अभिनय कर रहे थे।

5. सूखी नदी में तैरने मत जाना कथन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर- जब भी कोई व्यक्ति किसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेवकूफी ही भरा प्रयास करता है तो लोग कहते हैं सूखी नदी में तैरने मत जाना।

विशेषण किसे कहते हैं

उत्तर- जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे -1. यह आम **मीठा** है। 2.मेरी टोपी **लाल** है। 3.लोमड़ी बहुत **चतुर** है।

क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ?

उत्तर- क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रियाविशेषण कहते हैं जैसे- 1.राम अच्छा **गाता** है। 2.लोग नदी में **तैर** रहे हैं। 3.मैं फल **खा** रहा हूँ।

निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करो -

- 1.रचना तेज बोलती है।
- 2.अर्पिता मधुर गाती है।
- 3.कोयल मीठा गाती है।
- 4.वह अच्छा गाता है।
- 5.वह अभी अभी आया है।
- 6.कछुआ धीरे धीरे चलता है।
- 7.कूड़ा यहाँ-वहाँ नहीं फेंकना चाहिए।
- 8.सुबह उठकर पढा करो।

दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो-

बिजली, कमल, सवेरा, नदी, झरना
बिजली - विद्युत, तड़ित, दामिनी
कमल - नीरज, पंकज, जलज
सवेरा - प्रातः, भोर, प्रभात
नदी - सलिला, तटनी, सरिता
झरना - प्रपात, निर्झर, स्त्रोता